APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Corporate Office: C-1/9 First Floor, Sector – 31, Gautam Budh Nagar, Noida, 201301 CIN No. L74899DL1983PLC016713 Email: <u>apoorvaleasing@gmail.com</u> PH # 0120 - 4372849

15th February, 2024

То

The Department of Corporate Services,

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 Scrip Code- 539545

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended 31st December 2024

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publication of un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 31st December, 2023 as published in the "The Jansatta" Hindi and "Financial Express" as English edition dated 15th February, 2024.

Kindly take the same on your record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For Apoorva Leasing Finance & Investment Company Limited

Nitin Dubey
Company secretary

FINANCIAL EXPRESS

Khet Babu Ram, South: Plot Jaya, East:

Road 12 Feet, West: Road 12 Feet Wide

AUTHORIZED OFFICER, PNB HOUSING FINANCE LTD.

INDIA LEASE DEVELOPMENT LIMITED

Regd Office: MGF House, 4/17-B, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002 Phone: 41520070, Fax No.:41503479

Website:www.indialease.com, E-mail:info@indialease.com CIN:L74899DL1984PLC019218 | GSTIN:07AAACI0149R1ZB

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

Members of India Lease Development Limited are hereby informed that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and various Circulars issued by MCA in this regard (recent Circular No. 11/2022 dated 28.12.2022) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and other applicable laws, rules the company is seeking approval of members by Special Resolution for the appointment of Sh. Dinesh Agnani (DIN: 00591448) as Non Executive Independent Director for a period of five years from February 09, 2024 to February 08, 2029 through Postal Ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") only.

The dispatch of Notice of Postal Ballot to the Members has been completed on February 14, 2024 only by email to those Members whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and Depositories in compliance with MCA circulars and SEBI circulars and the same is available on the website of the Company https://www.indialease.com/ PostalBallot.html website of the BSE at www.bseindia.com and on website of CDSL at www.evotingindia.com

The company has appointed Anjali Yadav & Associates, Practising Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process through Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility. The company has fixed Friday, February 09, 2024 as the "Cut Off date" to ascertain the eligibility of members to vote by remote e-voting. The remote e-voting facility will be available during the following period:-

00 Hours IST
day, March 15, 2024 at 17:00
209002

CDSL and members will not be allowed to vote thereafter. In case of any queries regarding the E-voting facility, Members

may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'Help Section' or write an email to helpdesk.evoting@ cdslindia.com. Alternatively, the Members may also write an e-mail to the Company at info@indialease.com for any queries/information. The results of the Postal Ballot shall be announced within two

working days and shall be uploaded in the website of the company and will be communicated to BSE and CDSL. By order of the Board

> For India Lease Development Limited Rohit Madan Manager, Company Secretary & CFO

Place: New Delhi ACS: 13636 Date: February 14, 2024

SOUTH Bank

Regional Office - Delhi

The South Indian Bank Ltd 3rd Floor, Plot No.21, 21/1, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110005, Phone-011 4233 1664/ 011 4512 866/ 7982865660 email-ro1008@sib.co.in/ gc1008@sib.co.in

Ref: DEL/CRD/SAR/45/2023-24 Date: 14.02.2024 E - AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) and 9(1) of the Security Interest (Enforcement) [1] M/s. Savemax Wholesale Club [2] Mr. Vaibhav Singhal, S/o Sh. Gian

Private Limited, 401 'D' Mall, Netaji | Chand Singhal, 25/75 Shakti Nagar, Subhash Place, New Delhi - 110034 Delhi - 110007. also at 806-807, Udyog Vihar, Phase [3] Ms. Seema Gupta, W/o Sh. Gian Chand V, Gurgaon, Haryana - 122001 Singhal, 25/75 Shakti Nagar, Delhi - 110007

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower/guarantors that the below described immovable property/ies mortgaged to the South Indian Bank Ltd, Branch Karol Bagh (Secured Creditor), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of The South Indian Bank Limited (Secured Creditor), will be sold on "as is where is" basis, "as is what is" and "whatever there is" condition on 11.03.2024 for recovery of an amount of Rs. 27,44,70,517.95 (Rupees Twenty Seven Crores Forty Four Lakhs Seventy Thousand Five Hundred Seventeen and Paisa Ninety Five Only) as on 13.02.2024 with future interest, costs and expenses etc. thereon due to The South Indian Bank Limited, Branch Karol Bagh (Secured Creditor).

Name of Property Owner	M/s Savemax Wholesale Club Private Limited	
Description of property	All that part and parcel of commercial unit no.A-42, admeasuring super area 2806 sq. ft on Atrium Floor of commercial complex known as "Parker Mall" situated at G.T. Road, N.H. 1, Sector-62, Kundli, Sonepat, Haryana morefully described in conveyance deed bearing no. 2853 dated 21.11.2016 registered with Sub – Registrar-Rai, Sonepat Haryana, owned and possessed by M/s. Savemax Wholesale Club Private Limited -bounded on the North: Passage & Unit No. A-37, South: Side Set Back /Drive way, East: Unit No. A-41, West: Unit No. A-43.	
Reserve Price	Rs. 1,13,64,300.00/- (Rupees One Crore Thirteen Lakhs Sixty Four Thousand Three Hundred Only)	
Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 11,37,000/- (Rupees Eleven Lakhs Thirty Seven Thousand Only) EMD shall be deposited on or before 08.03.2024 by 05.00 PM	
Bid incremental amount	Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)	
Encumbrances known to the Bank	To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance with respect to the mortgaged property. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, maintenance charge, land use, statutory dues, electricity charges etc. and title of property and should inspect and satisfy themselves prior to submission of bid.	
Date and time of E-auction	11.03.2024 from 11.00 AM to 11.30 AM (with 5 minute unlimited auto extensions till sale is concluded)	

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in web portal f South Indian Bank Ltd, (Secured Creditor) website i.e. www.southindianbank.com Details also available at https://bankauctions.in. For any further clarification with regards to inspection of property, terms and conditions of

the e-auction or submission of bids, kindly contact South Indian Bank Ltd on 7982865660 (contact number). Date: 15.02.2024

Place: New Delhi AUTHORISED OFFICER

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an

advertisement in any

manner whatsoever.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Name of the **Property Mortgaged** Account Borrower/Co-Notice Outstanding Possession Borrower/Guarantor Rs 14.31,764.73 (Rupees HOU/LUC/ Mr. Biswajit Biswas 07/11/2023 08-02-2024 All The Property Bearing On Khasra No 273/1, Village Sithaura Measuring 76.08 Sq Metre . Bareilly , Uttar Pradesh North: 0522/990775 S/o Kumud Ranjan Fourteen Lakh Thirty One (Symbolic)

Thousand Seven Hundred

Sixty Four & Paise Seventy

Three Only) as on 07/11/2023

ig, Onice : 9th Floor, Amtriksh Bhawan, 22, K.G. Warg, New Deini-Huuut,

Ph: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com BRANCH OFFICE: #307 & 306, 310 Floor Commercial Complex, Cyber Heights, Gomit Nagar, Luckhow- 220010

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-;4372849 E-mail: apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com Regd. Off: Block-34, House no. 247, Trilokpri, Delhi-110091

Corp. Off:C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

📵 թոь Housing

B.O.: | Biswas (Borrower) &

(Co-Borrower)

PLACE:- LUCKNOW, DATE:- 13.02.2024

LUCKNOW | Mrs. Anjana Biswas

Finance Limited

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and nine month ended on 31st Dec., 2023

			Amount in Lacs			
Particulars	Standalone		Consolidated			
	Quarter Ended on 31.12.2023 Unaudited	Year to date on 31.12.2023 Uanudited	Quarter Ended on 31.12.2022 Unaudited	Quarter Ended on 31.12.2023 Unaudited	Year to date on 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended on 31.12.2022 Unaudited
Total Income from Operations (net)	138.62	362.70	92.60	138.62	378.34	92.60
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	119.39	297.85	62.36	119.33	313.28	62.24
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	119.39	297.85	62.36	119.33	3.28	62.24
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	89.34	222.89	46.67	89.30	228.55	46.58
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	75.55	224.08	58.98	75.76	222.41	61.63
Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
Basic:	0.45	1.12	0.23	0.45	1.14	0.23
Diluted:	0.45	1.12	0.23	0.45	1.14	0.23

the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 31st December, 2023 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and nine month ended on 31st December, 2023

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations, 2015, The full format of

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited

Atul Singh Tyagi Date: February14, 2024 Managing Director Place: Noida DIN: 01335008

केनरा बैंक Canara Bank A Government of India Undertaking

Regional office, Haldwani Kusumkhera, near Balaji Banquet Hall, Cheenpur, Haldwani DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND **ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002** That Shri Jaspal Singh S/o Shri Mohan Singh has availed the following loans/credit facilities from our Canara Bank,

Bajpur-I Branch from time to time:

Liability As on Rate of Interest Date of Loan No. Nature of Loan/Limit Loan Amount No. 29.12.2023 (including 2% Penal) Sanction Rs. 10,00,000.00 Rs. 10,11,299.97 3486619000080 10/01/2017 **Housing Loan** 13.40%

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgagor of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by said borrower in our favour. Since you had failed to discharge the liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 09/01/2024. Hence, Bank had issued this notice to Borrower under Section 13(2) of the subject Act calling upon the borrower to discharge the entire liability of Rs. 10,11,299.97 (As on 29.12.2023) with accrued and up-to-date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice (10.01.2024), failing which Bank shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, Borrower/Guarantor/Mortgagor are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent of the bank. This is without prejudice to any other rights available to the bank under the subject Act and/or any other law in force. The attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem

the secured assets. The demand notice had also been issued to Borrower/Guarantor/Mortgagor on 10.01.2024 by

Registered Post to the last known address available in the Branch record, which was return to the bank.

Pin:262401

SCHEDULE **Details of Security Assets** Name & Address of Name of Title Brief Description of Immovable Property/ies Borrower/Guarantor/Mortgagor Holder Shri Jaspal Singh & 1. Shri Jaspal Singh (Borrower/ Residential Land & Building in the name of Shri Jaspal Singh S/o Shri Beer Singh Shri Mohan Singh & Shri Beer Singh S/o Shri Mohan Singh Mortgagor) S/o Shri Mohan Singh situated at Village Raita, Tehsil Bajpur, Dist U S Nagar bearing Khata No. 00034, Khasra Village- Raita Bhikampuri, PO- Fauzi No. 86/1/2 Min measuring 6806 Square feet or 632.52 Square meters. Boundaries: Colony, Tehsil Bajpur, Distt. U S Nagar

2. Shri Beer Singh (Guarantor/Mortgagor) S/o Shri Mohan Singh, House No. 39, Village Raita Bhikampuri, PO- Fauzi Colony Tehsil Bajpur, Distt. U S Nagar, Pin- 262401

Date: 15.02.2024 Place: Haldwani, Distt. Nainital **Authorised Officer**

East: land of Seller, West: River, North: 5 meter wide Rasta, South: Land of Seller.

केनरा बैंक Canara Bank A Government of India Undertaking

Regional office, Haldwani Kusumkhera, near Balaji Banquet Hall, Cheenpur, Haldwani DEMAND NOTICE Annexure-2A NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

That Smt. Pooja D/o Shri Banwari Lal & DINESH has availed the following loans/credit facilities from our Canara Bank, Rudrapur Branch from time to time:

SI. No.	Loan No.	Nature of Loan/Limit	Date of Sanction	Loan Amount	Liability As on 12.12.2023	Rate of Interest (including 2% Penal)
1.	160000376070	Home Loan	03/12/2021	Rs. 19,00,000.00	Rs. 19,51,461.00	11.45%
2.	164001613470	Home Loan Secure	09/12/2021	Rs. 1,37,790.00	Rs. 1,33,529.00	11.50%
3.	164003483878	Home Loan Secure	09/06/2023	Rs. 6,00,000.00	Rs. 6,18,062.78	11.35%

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgagor of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by said borrower in our favour. Since you had failed to discharge the liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 29/11/2023. Hence, Bank had issued this notice to Borrower under Section 13(2) of the subject Act calling upon the borrower to discharge the entire liability of Rs. 27,03,052.78 (As on 12.12.2023) with accrued and up-to-date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice (12.12.2023), failing which Bank shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, Borrower/Guarantor/Mortgagor are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent of the bank. This is without prejudice to any other rights available to the bank under the subject Act and/or any other law in force. The attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The demand notice had also been issued to Borrower/Guarantor/Mortgagor on 12.12.2023 by Registered Post to the last known address available in the Branch record, which was return to the bank. SCHEDULE

	NOTICE THE PROPERTY OF THE PRO	
	Details of Security Assets	
	2	3
Name & Address of Borrower/Guarantor/Mortgagor	Brief Description of Immovable Property/ies	Name of Title Holder
1. Pooja D/o Banwari Lal (Borrower EMT of residential house situated at village Barirai, Tehsil Gadarpur, Dist U S Nagar bearing Survey No. 00820 Varga 1 Ga, Khasra No. 1401		Pooja D/o Shri Banwari Lal
Rampura, Rudrapur, U S Nagar- 263153. 2. Smt. Neetu W/o Bhagwan Das	Min measuring 840 square feet or 78.07 square meter. Boundaries - E meter (13 feet) & Nahar, West : Land of Diwakar Rana, North: Land of Land of vendor.	ast: A rasta 3.962
[일급]	Rudrapur, Udham Singh Nagar-263153. 3. Dinesh (Co Borrower), 19:	1 Ward No 8,

Rampura, Rudrapur, U S Nagar Pin - 263153. Place : Haldwani, Distt. Nainital Date: 15.02.2024 Authorised Officer

New Delhi

PRIVATE LIMITED CIN: U74120DL1992PTC050460 istered Office: House No. 68, Ground Floor Block-C, Pkt-7, Sector-8, Rohini, Naharpur, North West Delhi, Delhi-110085 E-mail: info@logixcorporate.com **PUBLIC NOTICE** In compliance with the Para 5 of Notification

LOGIX CORPORATE SOLUTIONS

No. DNBR. (PD) 029/CGM (CDS)-2015 issued by Reserve Bank of India on July 09 2015, notice is hereby given that Logix Corporate Solutions Private Limited ('the Company'), a company incorporated under the Companies Act, 1956 and registered with the Reserve Bank of India (the 'RBI') vide Certificate Number B-14.02247 as a Non Deposit taking Non-Banking Finance Company, having its Registered office situated at House No. 68, Ground Floor Block-C, Pkt-7, Sector-8, Rohini, Naharpur North West Delhi, Delhi-110085 India, is intended to change in management of the company by appointing Mr. Pradeep Singh Solanki (DIN: 05279661) as a new director. The above Notice is being given pursuant to RBI Circular DNBR, (PD) CC No.065/03.10.001/2015-16 dated July, 09 2015 and other relevant Regulations. The company has already obtained the prior approval for change of Management from RBI, Delhi vide letter No. P.V.(N.D.) S.No. S866/NBFC-BL/05.12.060/2023-24. Any clarification/ Objection in this regard

may be addressed to Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India. 6. Sansad Marg, Delhi-110001 within 30 days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and grounds of objection. This public Notice is being issued by the Company.

For Logix Corporate Solutions Private Limited Date: 14.02.2024

केनरा बैंक Canara A Government of India Undertaking रिपाइकेट Syndicate Regional office, Haldwani Kusumkhera, near Balaji Banquet Hall, Cheenpur, Haldwani DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 That Smt. Mamta Devi W/o Pramod Kumar has availed the following loans/credit facilities from our Canara Bank,

Kashipur-I Branch from time to time:

	cluding 2% Penal
1. 2795619000792 Housing Loan 20/02/2019 Rs. 20,00,000.00 Rs. 19,34,820.38	10.55%

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgagor of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by said borrower in our favour. Since you had failed to discharge the liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 18/11/2023. Hence, Bank had issued this notice to Borrower under Section 13(2) of the subject Act calling upon the borrower to discharge the entire liability of Rs. 19,34,820.38 (As on 20.11.2023) with accrued and up-to-date interest and other expenses, within sixty days from the date of the notice (20.11.2023), failing which Bank shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, Borrower/Guarantor/Mortgagor are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent of the bank. This is without prejudice to any other rights available to the bank under the subject Act and/or any other law in force. The attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The demand notice had also been issued to Borrower/Guarantor/Mortgagor on 20.11.2023 by Registered Post to the last known address available in the Branch record, which was return to the bank. SCHEDULE

Details of Security Assets				
1	2			
Name & Address of Borrower/Guarantor/Mortgagor	Brief Description of Immovable Property/ies	Name of Title Holder		
1. Mamta Devi W/o Pramod Kumar (Borrower/Mortgagor), C/o Sudhir	BY BECH BY ION BUT I BUT I SERVED IN BUT I BY IN BUT IN BUT IN BUT IN BUT IN BUT IN THE BUT I BET I BUT IN			
Kumar Sirswal BSNL Tower Colony, Bazpur Road Kashipur U S Nagar, Kashipur,pin 244713	Dist. U S NagarBearing House No. 129, Khata No. 109, Khasra No. 1 1080 square feet. Boundaries - East: House No. 130, West: House N 25 feet wide, South: Villa No. 114.			

 Shri Sudhir Kumar Sirswal S/o Manohari Lal (Guarantor), BSNL Tower Colony, Bazpur Road Kashipur, Kashipur, Pin 244713. Date: 15.02.2024 Place: Haldwani, Distt. Nainital Authorised Officer

Mr. Chetan Kumar (Director Place: New Delhi

in a class (three names for each class)

14. (a) Relevant forms and

Place: Delhi

financiale

PUBLIC ANNOUNCEMENT [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FORM A

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MYCOZOOM BIOTECH INDIA PRIVATE LIMITED

	RELEVAN	IT PARTICULARS
1.	Name of Corporate Debtor	Mycozoom Biotech India Private Limite
2.		08.03.2019
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC - Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U24100DL2019FTC347036
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Off.: 23/7, Second Floor, Old Rajender Nagar, Delhi – 110060
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	05.02.2024 (Order recd. on 12.02.2024)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	03.08.2024
8.	Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	M/s RR Insolvency Professionals LL Reg. No.: IBBI/IPE-0056/IPA-1/2022-23/50009
9.	Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	Reg. Add.: C-51, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-2010 Email: ipreshma@rrinsolvency.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	Add.: II/E-64 Nehru Nagar, Ghaziabad, U.P2010 Email: ibc.mbipl@gmail.com and cc: rakesh.jindal@rrinsolvency.in
11.	Last date for submission of claims	26-02-2024
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	NA
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors	

(a) Weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (b) Details of authorized representatives Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Mycozoom Biotech India Private Limited on 05.02,2024

(order recd. on 12.02.2024). The creditors of Mycozoom Biotech India Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 26.02.2024 to the interim resolution professional at the address mentioned against

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. CA IP Rakesh Jindal For and on behalf of RR Insolvency Professionals LLP Regn.No.: IBBI/IPE-0056/IPA-1/2022-23/50009 Date: 15.02.2024

AFA No.: AA1/50009/02/191224/20007 | Valid till : 19/12/2024 |

JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED CIN: L74999DL1982PLC014411 Registered Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre, New Delhi-110015, **Ph**: 011-45090162

E-mail Id: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.jtel.co.in

	MENT OF STANDALONE RTER AND NINE MONTH			
4.95		97 05	(Rs. in Thousan	ds except EPS)
SI.		Current	Previous	Previous
No.		Quarter ended	Quarter ended	Year ended
	DADTICIII ADS	31 12 2023	31 12 2022	31 03 2023

No.		Quarter ended	Quarter ended	Year ended
	PARTICULARS	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		(Unaudited / Reviewed)	(Unaudited / Reviewed)	(Audited)
1	Total Income from operations	17,935.00	1,443.97	8,069.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(21,441.58)	(1,402.78)	(6,875.89)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	(21,441.58)	(1,402.78)	(6,875.86)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	(21,851.86)	(1,401.32)	(6,429.45)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)	(21,893.89)	(1,412.81)	(6,485.48)
6	Equity Share Capital	50,816.40	50,816.40	50,816.40
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	62,386.88	68,872.37	62,386.88
8	Earnings Per Share (FV of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	(4.31) (4.31)	(0.28) (0.28)	(1.28) (1.28)

of Director in their meeting held on February 14, 2024 after being reviewed and recommended by the Audit The Statutory Auditors have reviewed these financial results pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. Segment reporting as defined in Accounting Standard -17 is not applicable as the Company is in engaged in

The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Nine Months Un-Audited Financial Results as per IND AS compliant filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and Nine Months Unaudited Financial Results as on 31.12.2023 are available on Company's website, www.jtel.co.in and Stock Exchange website, www.msei.in

For, JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED (Praveen Kumar Goel) Place: New Delhi Director Date: 14, February 2024

DIN: 00021153



कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 27BKC, C-27, G-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर -125, निकट डेल कैंपस, नोएडा, यूपी— 201313

प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की धारा 13(12) के साथ पिटत प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणीध्सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओंध्सह–उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए नीचे वर्णित संपत्ति पर उस पर उल्लिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है।विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन करने पर संबंधित तिथियां से भविष्य में ब्याज, लागत और शुल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। सरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख

उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता का नाम और पता ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	, विवरण सूचना दिनांक	तिथि 2. कब्जे का प्रकार 3. मांग 4. देय राशि रु.
श्री महिताब सफी पुत्र श्री सरीफ सफी और		
श्रीमती फरजाना बेगम पत्नी श्री मेहताब	ग्राम नांगल राया के क्षेत्र में, कॉलोनी	2. भौतिक कब्जा
सफल, दोनों का पता :मकान नंबर: 571, गली	जिसे मोहन नगर, नई दिल्ली–110046 के	3. 23.01.2024
नंबर 4, राजीव गार्डन, लोनी देहात,	नाम से जाना जाता है में स्थित नंबर	4.रु.44,17,404 / —(चवालीस
गाजियाबाद, यूपी–201102, दोनों यहाँ भीः	डब्ल्यू जेड–85 ,पहली मंजिल पर बिना	लाख सत्रह हजार चार सौ चार
पहली मंजिल संपत्ति नंबर	छत / छज्जा के अधिकार के, क्षेत्रफल	रुपये मात्र)11.01.2023 तक
डब्ल्यूजेड–85,खसरा नंबर 414/348/2,	103 वर्ग गज, यानि 86.12 वर्ग मीटर,	देय और बकाया और 12.01.
नांगल राया, मोहन नगर, दिल्ली–110046	खसरा नंबर 414/348/2 का हिस्सा,	2023 से पूर्ण भुगतान तक
,ऋण खाता संख्याः 609107210572515,		
स्वीकृत ऋण राशिः रु.40,80,000 / — (चालीस		
लाख अस्सी हजार रुपये मात्र)।		
दिनाकः १६०२ २०२४ स्थानः दिल्ली	कर्त कोटक महिंदा बैंक	निमिटेन पाधिकत अधिकारी

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री नकुल गुप्ता ((+919811862274) एवं श्री सोमेश सुंदरियाल (+919910563402) से संपर्क करें।



क्षेत्रीय कार्यालय : दिल्ली

दिनांक : 14.02.2024

साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 21, 21/1, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, दूरभाष : 011 4233 1664/ 011 4512 866/ 7982865660 ई-मेल : ro1008@sib.co.in/qc1008@sib.co.in

संदर्भ : DEL/CRD/SAR/45/2023-24

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

[1] मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट [2] श्री वैभव सिंघल, पुत्र श्री ज्ञान चंद सिंघल, लिमिटेड, 401 'डी' मॉल, नेताजी सुभाष 25/75 शक्ति नगर, दिल्ली-110007, प्लेस, नई दिल्ली -110034 और 806-[3] सुश्री सीमा गुप्ता, पत्नी श्री ज्ञान चंद सिंघल, 807, उद्योग विहार, फेज V, गुड़गांव, 25/75 शक्ति नगर, दिल्ली -110007

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों/जमानति को सूचित किया जाता है कि द साउथ इंडियन

बैंक लिमिटेड, शाखा-करोल बाग (प्रतिभृत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी भौतिक कब्जा कर लिया है, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, शाखा करोल बाग (प्रतिभृत लेनदार) के उपरोक्त कर्जदारों/जमानितयों से तिथि 13.02.2024 तक बकाया रु. 27,44,70,517.95 (रुपये सत्ताईस करोड़ चौवालीस लाख सत्तर हजार पांच सौ सत्रह एवं पिचानबे पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, लागतों एवं व्ययों आदि की वसली हेत् उसकी बिक्री 11.03.2024 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो भी है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मल्य रु. 4.19.00.000.00 (रुपये चार करोड उन्नीस लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 41,90,000.00 (रुपये इकतालीस लाख नब्बे हजार मात्र) होगी।

मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट लिमिटेड

स्वामी					
सम्पत्ति का विवरण	जीटी रोड, एन.एच. 1, सेक्टर-62, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में स्थित 'पार्कर मॉल' वाणिज्यिक परिसर के एट्रियम फ्लोर पर 2806 वर्ग फुट के सुपर एरिया वाले वाणिज्यिक इकाई संख्या ए-42 का सम्पूर्ण भाग, कन्वेयंस डीड क्रमांक संख्या 2853 दिनांक 21.11.2016 में वर्णित, उप-रजिस्ट्रार-राय, सोनीपत हरियाणा के साथ पंजीकृत, मैसर्स सेवमैक्स होलसेल क्लब प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में, सीमाएं - उत्तर की ओरः पैसेज और यूनिट नंबर ए-37, दक्षिणः साइड सेट बैक/ड्राइव वे, पूर्वः यूनिट नंबर ए-41, पश्चिमः यूनिट नंबर ए-43				
आरक्षित	₹. 1,13,64,300.00/-				
मूल्य	(रुपये एक करोड़ तेरह लाख चौंसठ हजार तीन सौ मात्र)				
जमा धरोहर राशि	रु. 11,37,000/- (रुपये ग्यारह लाख सैंतीस हजार मात्र)				
(ईएमडी)	ईएमडी 08.03.2024 को 05.00 बजे अप. तक जमा करनी है				
बोली वृद्धि राशि	रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)				
बैंक को ज्ञात	प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, गिरवी				
ऋणभार	रखी गई संपत्ति के संबंध में कोई ऋणभार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को				
	ऋणभारों, रखरखाव शुल्क, भूमि उपयोग, वैधानिक बकाया, बिजली शुल्क				
	इत्यादि और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए				
	और बोली जमा करने से पहले खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए।				
ई-नीलामी की तिथि	11.03.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक (बिक्री की				
तथा समय	समाप्ति तक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)				
बिक्री के विस्तृत नियम	बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, (प्रतिभूत लेनदार) की				
11 1	N 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

वेबसाइट यानी www.southindianbank.com में दिए गए लिंक को देखें। विवरण https://bankauctions.in पर भी उपलब्ध है।

संपत्ति के निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम और शर्तों या बोलियां जमा करने के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कृपया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड से 7982865660 (संपर्क नंबर) पर संपर्क करें। तिथि: 15.02.2024

प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली

CAPITAL	आदित्य बिङ्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कपाउंड, वेरावल, गुजरात — 362266 शाखा कार्यालय — डी—17, बेसमेंट, सेक्टर 3, नोएडा, यूपी 201301
को	विनांकः 08.02.2024
100	भूतल, संपत्ति नंबर एम-47-बी, खसरा नंबर 56, गली नंबर 4, न्यू महाबी

नगर, ग्राम—नंगली जालिब, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली—110018 2. सरवजीत कौर एम-47 / बी. गली नंबर 4. न्यू महाबीर नगर, तिलक नगर एस.ओ., पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110018 प्रिय महोदय/महोदया,

विषयः स्वर्गीय गुरुमीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम, पते और विवरण का खुलासा संदर्भ: ऋण खाता संख्या: LNDEL0HL-05180007114 और LNDEL0HL-05180007118 हम, मैसर्स. आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत पंजीकृत कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय इंडियन रेयॉन कंपाचंड, वेरावल, गुजरात

–362266 में है और इसका शाखा कार्यालय आदित्य बिडला हार्राशंग फाइनेंस लिमिटेड, जी–कॉर्प टेक पार्क, 8वीं मंजिल, घोडबंदर रोड, डाइपर सिटी मॉल के बगल में, ठाणे (डब्ल्यू, - 400 607 पर है। (इसके बाद इसे' एबीएचएफएल "के रूप में संदर्भित किया गया है) आपको स्वर्गीय गुरमीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों के विवरण के प्रकटीकरण के लिए निम्नलिखित नोटिस देता है। इसके अलावा, कृपया आपके द्वारा ली गई ऋण सुविधा की मंजूरी का संदर्भ लें, जिसे अचल संपत्ति (इसके बाद 'संपत्ति' के रूप में संदर्भित) के बंधक के खिलाफ संबंधित मंज़री पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार एबीएचएफएल द्वारा विधिवत वितरित किया गया था

कपर बताए गए फ्री-होल्ड बिल्ट-अप में से छत के अधिकार के बिना संपूर्ण कपरी मृतल, संपत्ति का दक्षिणी (तीन तरफ खुला) हिस्सा संख्या एम-47-बी, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा संख्या 56 का हिस्सा, स्थित ग्राम नंगली जालिब, दिल्ली राज्य, दिल्ली के क्षेत्र में अब कॉलोनी जिसे न्यू महाबीर नगर के नाम से जाना जाता है, गली नंबर 4, नई दिल्ली - 110018, अलग-अलग मीटरों से सुसज्जित है और बिजली, पानी, और सामान्य सीवर और सबमर्सिबल कनेक्शन कार्य क्रम में हैं। उक्त संपत्ति के स्टिल्ट में एक कार और एक दोपहिया पार्किंग अधिकार के साथ, नीचे फ्रीहोल्ड भनि में आनुपातिक अधिकार के साथ और प्रवेश और निकास, सामान्य सीढ़ी और मार्ग, सामान्य प्रवेश द्वार, इसकी सभी फिटिंग और फिक्स्चर स्थापित के साथ उपयोग करने का सामान्य अधिकार के साथ इसमें लकड़ी, स्वच्छता और बिजली आदि शामिल है, इसके सभी अधिकार, ब्याज, जमा, सुविधा, शीर्षक, विकल्प, विशेषाधिकार, इससे जुड़े उपकरण आदि, और जो निम्नानुसार बंधे हैं:- पूर्व: मार्ग 30 फीट बौड़ा पश्चिम: मार्ग 15 फीट बौड़ा उत्तर: प्लॉट नंबर 47 का भाग, दक्षिण: मार्ग 15 फीट

रण सविधा का विवरण इस प्रकार है:

ऋण खाता संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृति पत्र की तिथि	ऋण समझीते की तिथि	जवारकर्ताओं की सूची
LNDEL0HL- 05180007114 और	स्त्यवे 29,00,000/-	24.05.2018	09.04.2018	1 गुरमीत सिंह
LNDEL0HL- 05180007118	स्तपवे 50,000/-	24.05.2018	09.04.2018	2 सरमणीत कौर

इस संबंध में उपरोक्त उधारकर्ताओं ने उपरोक्त ऋण प्राप्त करने के लिए दिनांक 09.04.2018 को ऋण अनुबंध निष्पादित किया था और उसमें उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार किया था। इसके अलावा वधारकर्ताओं ने पुनर्मुगतान अनुसूची के अनुसार उक्त ऋण सुविधाओं का पुनर्मुगतान करने पर मी सहमति व्यक्त की, निष्पादित ऋण समझौते के बदले में, यह भी सहमति हुई कि कानूनी उत्तराधिकारी उपरोक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में उत्पन्न होने वाली देनदारियों और दावित्यों के लिए भी उधारकर्ता जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, उक्त ऋण समझीते के तहत यह विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई थी कि एबीएवएफएल द्वारा संपत्ति को तब तक डिस्थार्ज / रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऋण के संबंध में सभी बकाया राशि एबीएचएफएल की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से चुका नहीं दी जाती है और एबीएचएफएल दिस्मार्ज / रिलीज करने के लिए सहमति नहीं देता है। जबतक उधारकर्ताओं को लिखित रूप में संपत्ति जारी

हाल ही में, यह एबीएचएफएल के संज्ञान और जानकारी में लाया गया है कि उपरोक्त ऋण सुविधा के बदले में उचार लेने वालों में से एक गुरमीत सिंह का निचन हो गया है, और आपके पते हमें नियत समय में इसके बारे में सुवित करने में विफल रहे।

दी गई परिस्थितियों में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के मीतर

स्वर्गीय गुरमीत सिंह के किसी भी और सभी कानूनी उत्तराधिकारियाँ, उत्तराधिकारियाँ, प्रशासकों के नाम, पते और विवरण का खुलासा करें। किसी भी और सभी कानुनी उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों के विवरण और आपके द्वारा निष्पादित किसी वसीयत या प्रोबेट के विवरण के संबंध में जानकारी प्रदान करने में आपकी विफलता पर उसके और ऋण समझौते या मंजूरी पत्र या उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित किसी भी अन्य दस्तावेजों के किसी भी या सभी नियमों और शतों के उल्लंघन की स्थिति में, एबीएचएफएल को उसके द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति के प्रवर्तन सहित कोई भी या सभी कानुनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएगा। सरफेसी अधिनियम (वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्का हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एबीएचएफएल के पक्ष में केवल उधारकर्ताओं और स्वर्गीय

गुरुमीत सिंह के किसी भी और सभी कानुनी उत्तराधिकारियों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों के खिलाफ जिसका

विवरण आपकी लागत और व्यय पर बैंक के पास उपलब्ध हो सकता है। कृपया सुचित रहें कि यदि आप उक्त नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर स्वर्गीय गुरुमीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों की उपरोक्त मांगी गई जानकारी देने में विफल रहते हैं. तो यह माना जाएगा कि स्वर्गीय गुरुमीत सिंह का कोई कानूनी उत्तराधिकारी मीजूद नहीं है और एबीएचएफएल ऐसा करेगा। बकाया ऋण की वसली के लिए संपत्ति के प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ें और यदि स्वर्गीय गुरुमीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हैं और आप कानूनी उत्तराधिकारियों की जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, तो इसे किसी या सभी की सेवा के रूप में आपके लिए प्राप्तकर्ता की सेवा माना जाएगा। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस सहित एबीएचएफएल के किसी भी भविष्य के संचार में स्वर्गीय गुरमीत सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी ।

प्राप्तिकृत अधिकारी आदित्य बिडला डाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जी-कॉर्प टेक पार्क, 8वीं मंजिल, घोडबंदर रोड, हाइपर सिटी मॉल के बगल में, ठाणे (डब्ल्यू) - 400 607

....IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पेरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट-15, छवा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122 002 शाखा कार्यालय : डी-58/12, ए-2, फ्रंट साइड, प्रथम तल, गांधी नगर, सिगरा, वाराणसी-221010

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति / प्रतिभृति के स्वामी से बकाया राशि का भृगतान उक्त सुचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति / यों का सांकेतिक कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति / यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति / यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि	
रीना सिंह, राज कुमार सिंह पता : रजवाड़ी कादीपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश—221116 अन्य पता : एस.एम. प्लॉट नंबर 253 का भाग, मौजा रजवाड़ी, परगना कटेहर, तहसील और जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश—221116 ऋण खाता सं. : LA15CLLONS000005040255	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : एस.एम. प्लॉट नंबर 253 का भाग, परिमाप 2056 वर्ग फीट, रिथत मौजा रजवाड़ी, परगना कटेहर, तहसील और जिला वाराणसी, पूरब : लालजी पांडे की भूमि, पश्चिम : 15 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : सत्य प्रकाश तथा सावित्री देवी का मकान, दक्षिण : राजमित देवी की भूमि	ě l	09—02—2024 (सांकेतिक कब्ज	
वंदना देवी, सोनू कुमार अग्रहरि पता : वार्ड नंबर 7, इलिया मोड़, इंदिरा नगर चंदौली, चंदौली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश—232104 अन्य पता : अराजी नंबर 126, ग्राम फूटियान, परगना मझवार, तहसील एवं जिला चंदौली उत्तर प्रदेश—232104 ऋण खाता सं. : HL15CHLONS000005042471	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट अराजी नंबर 126 का भाग, ग्राम फूटियान, परगना मझवार, तहसील एवं जिला चंदौली, शुभम लॉन, पूरब : एनए, पश्चिम : एनए, उत्तर : एनए, दक्षिण : एनए	मांग सूचना 19-08-2023 रू. 5,12,470 / – (रूपए पांच लाख बारह हजार चार सौ सत्तर मात्र) 10-08-2023 तक बकाया + 11-08-2023 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	10—02—2024 (सांकेतिक कब्ज	

स्थान : वाराणसी तिथि : 15-02-2024 वास्ते इडिया शेल्टर फाइनेस कापौरेशन लिभिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करे : श्री सुधीर तोमर मोबाइल - 91 9818460101

अपुरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: L74899DL1983PLC016713; दूरभाष: 0120-;4372849 ई—मेल: apporvaleasing@gmail.com; वेबसाइट: www.apoorvaleasingfinance.com पंजीकृत कार्यालय: ब्लॉक-34, हाऊस न० 247,त्रिलोकपुरी, दिल्ली-110091 कारपोरेट कार्यालय:सी-1/9, सेक्टर-31, नौयडा, उत्तर प्रदेश-201301

31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के संगठित एवं एकीकृत वित्तीय परिणामों का सार

विवरण		एकीकृत	1	संगठित			
	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को वर्ष से तिथि	31.12.2022 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को वर्ष से तिथि	31.12.2022 क समाप्त तिमाई	
	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	
रिचालन से कुल आय (नेट)	138.62	362.70	92.60	138.62	378.34	92.60	
गवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट ख़ं/अथवा असाधारण मदों से पहले#)	119.39	297.85	62.36	119.33	313.28	62.24	
हर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ∕(हानि) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले#)	119.39	297.85	62.36	119.33	3.28	62.24	
nर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ∕(हानि) वेशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	89.34	222.89	46.67	89.30	228.55	46.58	
नविधि के लिए कुल व्यापक आय [अविधि के लेए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं नन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	75.55	224.08	58.98	75.76	222.41	61.63	
वुकता इक्वीटी शेयर कैपीटल सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	
प्रति शेयर आय [सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर] संचालन जारी एवं बंद करने के लिए)-							
नूलः	0.45	1.12	0.23	0.45	1.14	0.23	
ारलः	0.45	1.12	0.23	0.45	1.14	0.23	

् उपरोक्त 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही वित्तीय परिणामों का विस्तारित प्रारूप का सार सेबी (सूचीबद्धता दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंर्तगत स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किये गये। 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के एकीकृत एवं संगठित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट www.bseindia.in एवं कम्पनी की वेबसाइट www.apoorvaleasingfinance.com पर उपलब्ध है।

2 #-विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को आईएनडी–एएस नियमों/एएस नियमों, जो भी लागू हों, के अनुसार लाभ एवं हानि कथन में समायोजित किये गये

अपूरवा लिजिंग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

अतुल सिंह त्यागी

प्रबन्ध निदेशक

DIN: 01335008

33

तिथि: फरवरी 14, 2024 स्थान : नौयडा

एसएनएस प्रोपर्टीज एंड लीजिंग लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 31, भू तल, सिरि फोर्ट रोड, मसजिद मोठ, नई दिल्ली, साउथ एक्स.-।।,

दक्षिणी दिल्ली-110049, सीआईएन : L65922DL1985PLC020853, ईमेल : sns.prop.ltd@gmail.com 21_12_2022 को समाप्त निमारी एवं नौ मार के अलेखाएरीश्रित विनीय एपिएए

31—12—2023 का समाप्त तिमाह					(रु. लाख
विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2023	समाप्त तिमाही 31.12.2022	समाप्त वर्तमान अवधि के वर्षाद्यतन आंकड़े 31.12.2023	समाप्त पूर्ववर्त्ती अवधि के वर्षाद्यतन आंकड़े 31.12.2022	समाप्त वर्ष 31.03.202
परिचालनों से कुल आय (निवल)	0.01	0.00	0.05	0.00	3.16
अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-0.93	-0.46	-3.17	-2.23	0.57
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	-0.93	-0.46	-3.17	-2.23	0.57
कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	-0.93	-0.46	-3.17	-2.23	0.57
समता अंश पूंजी	99.42	99.42	99.42	99.42	99.42
आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार		25		£.	-86.15
आय प्रति अंश (असाधारण मदों से पूर्व / पश्चात) (रु. 10/- प्रत्येक का) (रु. में)		854 400 AC	No. of the last of		
मूलभूत एवं तरलीकृत	-0.09	-0.05	-0.32	-0.22	0.06

. उपरोक्त परिणाम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 व अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप क एक सारांश हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.snsind.com) पर तथा एमएसईआई की वेबसाइट अर्थात (www.msei.com) पर भी उपलब्ध है।

> कृते एसएनएस प्रोपर्टीज एंड लीजिंग लिमिटेड प्रकाश चंद्र पारीक

> > निदेशक एवं सीएफअं

डीआईएन : 01507921

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14-02-2024

(पूर्व में शांतनु इंवेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्योलय : डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017 सीआईएन: L45100DL1973PLC006795, ईमेल: cs@greatvalueindia.com, मोबाइल नं. 91-11-41349612-14 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश राशि हजार में

आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड

क्र. सं.		समाप्त तिमाही			समाप्त नं	समाप्त वित्तीय वर्ष	
	विवरण	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	8,089.40	18,332.37	20,564.60	1,04,763.97	42,265.29	1,42,871.81
2	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-1,768.02	216.09	512.43	7,877.14	31.70	7,544.79
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	-1,768.02	216,09	512.43	7,877.14	31.70	7,544.79
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं असाधारण मदों के उपरांत)	-1,320.02	159.83	379.09	5,816.96	-0.72	5,552.75
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	-1,320.02	159.83	379.09	5,816.96	-0.72	6,294.35
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10 प्रति अंश का अंकित मूल्य)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
6	अन्य समतायें	50,205.43	51,525.44	38,093.41	50,205.45	38,093.41	44,388.48
7	आय प्रति अंश (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10 / — प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत) (क) मूलभूत (ख) तरलीकृत	-6.60 -6.60	0.80	1.90 1.90	29.08 29.08	-0.00 -0.00	27.76 27.76
8	आय प्रति अंश (असाधारण मदों के उपरांत) (रु. 10 / — प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत) (क) मूलभूत (ख) तरलीकृत	-6.60 -6.60	0.80 0.80	1,90 1,90	29.08 29.08	-0.00 -0.00	31.47 31.47

वित्तीय परिणामों के लिये संलग्न टिप्पणियाँ देखें।

. दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त एकल वित्तीय परिणामों की समीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षक पी.के. नरूला एंड कंपनी द्वारा की गई है, जिन्होंने इन पर एक असंशोधित राय प्रकट की है।

. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा तत्पश्चात् निदेशक मंडल ने 14 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया है।

कंपनी के पास केवल एक व्यवसाय खण्डवार है।

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 14-02-2024

. उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों पर तथा सूचीबद्ध निकाय की वेबसाइट अर्थात् (https://ayushman.net.in/) पर उपलब्ध है। आयुष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड

हेत तथा उसकी ओर से हस्ता./-मयंक अग्रवाल (निदेशक एवं सीएफओ)

डीआईएन : 00949052

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26" कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) हेन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग हितीय तल पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

जेबी पॉवर कंट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड CIN NO: U51397DL1996PTC078778 जिसका पंजीकृत कार्यालय : 173 ए, पॉकेट-ई, जीटीबी एन्क्लेय, दिल्ली-110093 में स्थित है

याचिकाकर्ता आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 10.01.2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टेल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकत डाक दवारा भेज सकता है या सपर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके चपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। मैसर्स जेबी पॉवर कंट्रोल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड 173 ए, पॉकेट-ई, जीटीबी एन्क्लेव, दिल्ली-110093

कत्ते आवेदक की ओर से जेबी पॉवर कंट्रोल सिंस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड हस्ता. / -पंकज अग्रवाल तिथि : 15.02.2024

गणि ज्यामी में

निदेशक जीआईएन : 02067127 स्थान : दिल्ली

मणिभवनम होम फाइनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(3)]

'एमबीएचएफ के रूप में संदर्भित), एमबीएचएफ जो कि भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना दिनांकित 17 06-2021 के द्वारा विधिवत ढंग से प्राधिकृत है. जिसे "वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के उद्देश्यों हेतु एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाना है जिसका पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, एन-2. साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1. नई दिल्ली 110049 में स्थित है. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रर्तित हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) वे अंतर्गत और प्रतिभृति हित्त (प्रक्रतन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13/2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगातर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 21-जुलाई-2023 निर्गत की थी, जिसमें 1. जितेंद्र यादव पुत्र हरपाल सिंह यादव 2. सुनीता यादव, डॉ/ओ हरपाल सिंह यादव, दोनों का पता - प्लॉट नंबर 55, एसएफ 4, सेक्टर 1 वसुंधरा गाजियाबाद - 201012, अन्य पत्ता : डेयरी फार्म, स्वदेशी पॉलीटेक्स कवि नगर, शनि मंदिर के समीप, गाजियाबाद-201002. अन्य पत्ता : फ्लैट नंबर एसएक 4. दूसरी मंजिल (पिछला आरएचएस / दक्षिण पश्चिमी भाग) पांडव नगर प्लॉट नंबर 140 खसरा नंबर 306. न्यू एरा स्कूल के समीप, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-201001, अन्य पता : फ्लैट नंबर एसएफ-2 प्लॉट नंबर-140, महरौली, परगना-डासना, गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश-201001

13-जुलाई-2023 को नोटिस में उल्लिखित राशि अर्थात रु. 26,76,385.32/- (रुपये छब्बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ पचासी और बत्तीस पैसे केवल) को चुकाने के लिए, ऋण खाता संख्या LP00000000003060 के माध्यम से उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर लागू ब्याज और अन्य शल्कों के साथ।

उधारकर्ता राशि चुँकाने में विफल रहा था, इसके द्वारा उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 13 फरवरी 2024 को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मणिभवनम होमे फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा. जो लाग ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ 13-जुलाई-2023 को रु. 26,76,385.32/-(रुपये छब्बीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ पचासी और बत्तीस पैसे केवल) की राशि के लिए होगा। प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

प्लॉट नंबर 140 पर, खसरा नंबर 306 पर, महरौली परगना डासना तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्त प्रदेश 201001 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 62.71 वर्ग मीटर है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित है: उत्तर- प्लॉट नं. 154, पूर्व- प्लॉट नं. 141, दक्षिण- 7.35 मीटर चौड़ा, पश्चिम- प्लॉट 139"

स्थान: गाजियाबाद दिनांक: 13.02.2024

अधिकृत अधिकारी मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(Rs. in Lacs)

APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED

CIN: L65910DL1985PLC021241

Regd. Office: L-3, Green Park Extension, New Delhi – 110016

Email: contact@apexfinancials.in; Website: www.apexfinancials.in; Tele-Fax: +91 11 40348775 EXTRACTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2023

				'	,
SI. No.	PARTICULARS	Quarter Ended	Nine Months Ended	Ended	Year Ended
		31/12/2023	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations	615.05	851.61	118.13	511.13
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	506.53	545.87	17.64	87.90
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	506.53	545.87	17.64	87.90
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	379.09	408.46	12.01	63.47
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	379.09	408.46	12.01	63.47
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	592.00	592.00	592.00	592.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_	Ī	-	2034.86
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)				
	Basic (Rs.)	6.40	6.90	0.20	1.07
	Diluted (Rs.)	6.40	6.90	0.20	1.07

 The above unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on 14.02.2024 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 14.02.2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid financial results.

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 are available on the Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the Company's Website at www.apexfinancials.in.

> By the Order of the Board for Apex Capital and Finance Limited

Date: 14.02.2024 Place: New Delhi

NOTES:

(Shekhar Singh) **Managing Director**

DIN: 0003956

R R Financial Consultants Limited

CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd Off.:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001

Phone:- 011-23354802 Email id:-cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com Extract of Consolidated Un-audited Financial Results for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2023

(₹ in lakhs) Consolidated

Particulars	Quarter ended			Nine Mor	Year ended	
	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Un-Audited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 (Audited)
Total income from operations (net)	496.36	552.73	460.57	1,593.39	1428.08	1837.92
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	14.27	55.69	10.69	135.12	87.05	64.37
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.79)	55.69	10.69	110.06	87.05	64.37
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(11.08)	55.69	9.19	102.27	77.77	59.41
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(9.52)	49.92	2.02	93.53	64.16	52.03
Equity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94	1,106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year						3513.86
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic Diluted	(0.09) (0.09)	0.45 0.45	0.02 0.02	0.84 0.84	0.58 0.58	0.47 0.47

Key Standalone Un-audited Financial information for the 3rd Quarter ended on 31st December, 2023

						(< in lawns)		
	Standalone							
Particulars		Nine Months ended		Year ended				
	The second that he had been a former as	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	31.12.2022 (Unaudited)			31.03.2023 (Audited)		
Total income from operations (net)	30.59	17.29	22.27	80.25	59.39	77.61		
Profit before tax	10.73	-1.52	0.42	11.04	1.83	1.76		
Profit after tax	10.44	-1.52	0.42	10.45	1.43	0.13		

Place: New Delhi

1. The above is an extract of the detailed format of 3rd Quarter ended Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/ consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on

Company's website www.rrfcl.com. The above results has been prepared in compliance with recognition and measurement principles of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS), as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amended Rules), 2016 prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable

The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by Board of Directors at its meeting held on 14.02.2024.


Previous period figures have been reclassified/ regrouped wherever considered necessary to conform to the current figures. For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited

Date: 14th February, 2024

Rajat Prasad Managing Director DIN: 00062612



The Indian Express. For the Indian Intelligent.





♦ The Indian EXPRESS

www.readwhere.com